



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2014/माघ 3, 1935

No. 34]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2014/MAGHA 3, 1935

वित्त मंत्रालय

(विभागराजस्व)

अधिसूचना

नई दिल्ली 23, जनवरी 2014,

सं/08 .2014(एडीडी) सीमा शुल्क-

सा.नि.का. 50(अ).—जबकि कि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 17 जुलाई 2012, के भारत के राजपत्र, भाग, असाधारण-Iखंड, 1 में प्रकाशित दिनांक 17 जुलाई 2012, की अपनी अधिसूचना सं 15./1000/-2012 से मूलतः (यहां जिसे विषयगत देशों के रूप में संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत साउदी अरब और रूस, डीजीएडी (के रूप में संदर्भित किया गया है विषयगत वस्तु यहां जिन्हें) माइनरित या वहां से निर्यात किए गए हैक्सोउत्पा 1975, अधिनियम जो सीमा शुल्क (1975 का 51) (अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है जिसे यहां उपर्युक्त) 10 29 2921 की प्रथम अनुसूची में टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र-भाग, असाधारण, II) उपखंड, 3-खंड, i) में दिनांक 25 जुलाई 2007, को सा (अ) 504 सं. नि.का. के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, 25 की दिनांक (राजस्व विभाग) जुलाई 2007, की अधिसूचना सं 89 ./ के अंतर्गत लागू किया गया था सीमा शुल्क-2007, को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी।

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग II-, खंड) उपखंड, 3-i) में दिनांक 6 अगस्त, 2012 को साके अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार (अ) 616 सं. नि.का., वित्त मंत्रालय की (विभागराजस्व) 6 दिनांक अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं 38 ./ के द्वारा (एडीडी) सीमा शुल्क -2012, 24 जुलाई, 2013 तक

क्र.स.	टैरिफ शीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पाद क	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
)1()2()3()4()5()6()7()8()9()10(
1	29212910	हैक्सा माइन	साउदी अरब	साउदी अरब	मैथानोल कैमिकल्स कंपनी (कैमानोल), साउदी अरब	मैथानोल कैमिकल्स कंपनी (कैमानोल), साउदी अरब	11.22	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	29212910	हैक्सा माइन	साउदी अरब	साउदी अरब	अन्य	कोई	86.35	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	29212910	हैक्सा माइन	साउदी अरब	साउदी अरब	कोई	अन्य	86.35	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	29212910	हैक्सा माइन	साउदी अरब	साउदी अरब को छोड़कर अन्य कोई	कोई	कोई	86.35	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

5	29212910	हैक्सा माइन	विषयगत देशों को छोड़कर अन्य कोई	साउदी अरब	कोई	कोई	86.35	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
6	29212910	हैक्सा माइन	रूस	रूस	कोई	कोई	201.70	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
7	29212910	हैक्सा माइन	रूस	रूस को छोड़कर अन्य कोई	कोई	कोई	201.70	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
8	29212910	हैक्सा माइन	विषयगत देशों को छोड़कर अन्य कोई	रूस	कोई	कोई	201.70	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

वर्ष की अवधि 5 इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लगाया गया प्रतिपादन शुल्क .2 इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और ,जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है) तक उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगत (इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) न भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण "विनिमय दर" की गणना के प्रयोजन में लागू ऐसे प्रतिपादन शुल्क ,इस अधिसूचना के आशय से :- अधिनियमवर्षों होगी जो सीमा शुल्क,) 1962 1962 का 52) की धारा 14 की उप) धारा-3(के खण्ड के उप (क)-खण्ड ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,द्वारा (विभागराजस्व) है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट-समय 46 अधिनियम की धारा सीमा शुल्कउपर्युक्त के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा354 .सं./94/2001-टीआरयू -भाग)III(]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2014

No. 08 /2014-CUSTOMS (ADD)

G.S.R.50(E).— Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 15/1000/2012-DGAD, dated the 17th July, 2012, published in Part I, Section I of the Gazette of India, Extraordinary had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Hexamine (hereinafter referred to as subject goods) falling under tariff item 2921 29 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from the Saudi Arabia and Russia (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 89/2007-Customs dated the 25th July, 2007 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* G.S.R. No.504 (E), dated the 25th July, 2007 .

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries upto and inclusive of the 24th July, 2013 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 38/2012-Customs (ADD) dated the 6th August, 2012,

published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R No.616 (E), dated the 6th August, 2012.

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, the designated authority *vide* its final findings, No. 15/1000/2012-DGAD dated the 14th November, 2013, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, has come to the conclusion that-

(i) There has been continued dumping of the subject goods from subject countries and the dumping is likely to continue and increase if the anti-dumping duty is allowed to cease;

(ii) The injury to the domestic industry is likely to continue in the event of withdrawal of anti dumping duty from the subject countries;

(iii) The anti dumping duty is required to be extended and modified,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9), of the said Table.

TABLE

Sl No.	Tariff item	Description of goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2921 29 10	Hexamine	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Methanol Chemicals Company (Chemanol), Saudi Arabia	Methanol Chemicals Company (Chemanol), Saudi Arabia	11.22	MT	US Dollar
2	2921 29 10	Hexamine	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Others	Any	86.35	MT	US Dollar
3	2921 29 10	Hexamine	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Any	Others	86.35	MT	US Dollar
4	2921 29 10	Hexamine	Saudi Arabia	Any other than Saudi Arabia	Any	Any	86.35	MT	US Dollar
5	2921 29 10	Hexamine	Any other than Subject countries	Saudi Arabia	Any	Any	86.35	MT	US Dollar
6	2921 29 10	Hexamine	Russia	Russia	Any	Any	201.70	MT	US Dollar

7	2921 29 10	Hexamine	Russia	Any other than Russia	Any	Any	201.70	MT	US Dollar
8	2921 29 10	Hexamine	Any other than Subject countries	Russia	Any	Any	201.70	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No.354/94/2001-TRU (Pt.-III)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 23 , जनवरी, 2014

सं० 9 ./(एडीडी) सीमा शुल्क-2014

सा.नि.का.51(अ).—जबकि 4, 4 डाइअमीनो स्टिलबेन 2, 2 डाइसल्फोनिक एसिड (डीएसडीए) 1975 , टैरिफ अधिनियम जो सीमा शुल्क (खित विषयागत माल के रूप में उल्लिखित) (1975 का 51) के अंतर्गत 29 यकी प्रथम अनुसूची के अध्या (खित टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित सीमा शुल्क एतदपश्चात) :में मूलत (खित विषयागत देश के रूप में उल्लिखित) वर्गीकृत हैं और जो चीन जनवादी गणराज्य दित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में उत्पाद प्राधिकृत प्राधिकारी भारत के राजपत्र , असाधारण , 14 .I में प्रकाशित अधिसूचना सं-खंड , I-भाग/01/22 दिनांक , डीजीएडी-2012 नवम्बर 2013 , के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

- i) ने भारतीय बाजार में संबंधित सामान संबंध देश संबंध वस्तु (य मूल्य से कम कीमत पर प्रवेश किया है जिसके , ; का पाटन हुआ है रूप संबंध वस्तु परिणामस्व
- ii) नतम सीमा से अधिक है का पाटन मार्जिन न्यून संबंध देश से आयातित संबंध वस्तु (
- iii) विक क्षति हुई के संबंध में वास्त के संबंध वस्तु घरेलू उद्योग को संबंध वस्तु (है और ;
- iv) के पाटित आयातों के कारण हुई है। विक क्षति संबंध देश से संबंध वस्तु घरेलू उद्योग को वास्त (

दित अथवा निर्यातित विषयागत उत्पा : से मूलत जबकि पदनामित प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य लगाने माल तथा भारत में आयातित माल पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क की सिफारिश की ताकि घरेलू उद्योग को , क्षति से बचाया जा सके ।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ कन तथा उसका मूल्यां , की पहचानों पर प्रतिपादन शुल्क पाटित वस्तु) 1995 , नियमावली (संग्रहण और क्षति निर्धारण के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम

) 1975/1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और)5(द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत मालजिसका विवरण नीचे सारणी के ,) कॉलम 3(में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते -) जो कॉलम , हैं 2(में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं) कॉलम , 4(में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्धृत हैं और कॉलम) 5(में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम) 6(में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम) 7(में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं) सारणी के कॉलम पर उक्त , और भारत में आयातित हैं , 9(में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट) कॉलम , 10(में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कालम) 8(में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपादन शुल्क दर लगाती है।

सारणी

क्र. स.	उप-शीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
)1()2()3()4()5()6()7()8()9()10(
1	29214290 या 29215990 या 29222190 या 29222990 या 29309099	4, 4 डाइअमीनो 2 लबेनस्टि, 2- डाइसल्फोनिक एसिड (डीएएसडीए)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स हैबई हुआ कैम-डाई कैमिकल कं 0 0लि	मैसर्स हैबई हुआ कैम - डाई कैमिकल 0लि 0कं	270	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	29214290 या 29215990 या 29222190 या 29222990 या 29309099	4, 4 डाइअमीनो 2 लबेनस्टि, 2- डाइसल्फोनिक एसिड (डीएएसडीए)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उत्पादक निर्यातक/ .सं. कंउपर्युक्त) 1 से इतर (कोई संयोजन		460	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	29214290 या 29215990 या 29222190 या 29222990 या 29309099	4, 4 डाइअमीनो 2 लबेनस्टि, 2- डाइसल्फोनिक एसिड (डीएएसडीए)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	460	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	29214290 या 29215990 या 29222190 या 29222990 या 29309099	4, 4 डाइअमीनो 2 लबेनस्टि, 2- डाइसल्फोनिक एसिड (डीएएसडीए)	चीन जनवादी गणराज्य से इतर अन्य कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	460	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

नोट:-

i) 4 द अर्थातविचाराधीन उत्पा (4 डाइअमीनो स्टिलबेन 2, को भी (डीएसडीए) निक एसिडडाइसल्फो-2 -लिखित रूप में जाना जाता है निम्न

(क) 2,2'1)-(निक एसिडएमीनोबेंजनसल्फो-5) बिस(एथीनोडिल-2,

4 (ख), 4 डाइअमीनो स्टिलबेन 2, ,निक एसिडडाइसल्फो-2

2 (ग), 2'(निक एसिडएमीनो बेंजन सल्फो-5) डिलबिस-2 1-एथिने-

, एमसोनिक एसिड (घ)

डीएसडी एसिड (ङ)

ii) पाटनरोधी शुल्क 100 प्रतिशत के आधार पर परिकल्पित संबद्ध सामानों की मात्रा पर लगाया जाएगा ।

5 इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लगाया गया प्रतिपादन शुल्क .2 वर्ष की अवधि तक इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और ,जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगत (इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) न भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण की गणना के लिए लागू विनियम दर भारत इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपादन शुल्क - 1962 अधिनियम समय पर सीमा शुल्क-द्वारा समय (विभागराजस्व) मंत्रालयवित्त ,सरकार(1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है ।

[फा354.सं./141/टीआरयू-2013]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2014

No. 09/2014-CUSTOMS (ADD)

G.S.R. 51 (E). - Whereas in the matter of 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulphonic Acid (DASDA) (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from, the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 14/01/2012-DGAD, dated the 22nd November, 2013, has come to the conclusion, inter alia, that –

- The subject goods have entered the Indian market from the subject country below associated normal value, thus resulting in dumping of the subject goods;
- The dumping margin of the subject goods imported from the subject country is above de-minimis level;
- The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods; and
- The material injury to the domestic industry has been caused due to dumped imports of the subject goods from the subject country,

And whereas, the designated authority has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the People's Republic of China and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9), of the said Table.

TABLE

Sl. N.	Sub-Heading /Tariff item	Description of goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amt. of duty	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2921 42 90 or 2921 59 90 or 2922 21 90 or 2922 29 90 or 2930 90 99	4,4 Diamino Stilbene 2,2 Disulphonic Acid (DASDA)	People's Republic of China	People's Republic of China	M/s. Hebei Hua-Chem Dye Chemical	M/s. Hebei Hua-Chem Dye Chemical	270	MT	US Dollar
2	2921 42 90 or 2921 59 90 or 2922 21 90 or 2922 29 90 or 2930 90 99	4,4 Diamino Stilbene 2,2 Disulphonic Acid (DASDA)	People's Republic of China	People's Republic of China	Any combination of producer/exporter (other than in Sl. No.1 above)		460	MT	US Dollar
3	2921 42 90 or 2921 59 90 or 2922 21 90 or 2922 29 90 or 2930 90 99	4,4 Diamino Stilbene 2,2 Disulphonic Acid (DASDA)	People's Republic of China	Any country other than People's Republic of China	Any	Any	460	MT	US Dollar
4	2921 42 90 or 2921 59 90 or 2922 21 90 or 2922 29 90 or 2930 90 99	4,4 Diamino Stilbene 2,2 Disulphonic Acid (DASDA)	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	460	MT	US Dollar

Note:

(i) The Product Under Consideration i.e. 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulphonic Acid (DASDA) is also known as follows:

- 2, 2'-(1, 2- Ethylenediyl) bis (5-aminobenzenesulfonic acid).
- 4, 4'-Diaminostilbene- 2, 2'-Disulfonic Acid.
- 2, 2'-ethene -1, 2-diylbis (5-amino benzene sulfonic acid).
- Amsonic Acid.
- DSD Acid.

(ii) The Anti-dumping duty shall be imposed on the quantity of subject goods calculated on 100% basis.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.-For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No.354/141/2013-TRU]
AKSHAY JOSHI, Under Secy.